

प्रेस विज्ञप्ति

## जामिया द्वारा एंटोनियो कैनोवा पर इंटरडिसिप्लिनरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन

आर्किटेक्चर और एकिस्टिक्स संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इन्स्टीट्यूटो इटालियनो डी कल्चरा (इतालवी दूतावास सांस्कृतिक केंद्र) नई दिल्ली के सहयोग से, 21 अप्रैल, 2022 को महान नियोक्लासिकल मूर्तिकार और कलाकार एंटोनियो कैनोवा पर एक दिवसीय इंटरडिसिप्लिनरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. चियारा रोस्ताग्रो, वास्तुकार, संस्कृति मंत्रालय, इटली, डॉ. एंड्रिया बाल्दी, निदेशक, इन्स्टीट्यूटो इटालियनो डि कल्चरा, प्रोफेसर हिना ज़िया, डीन, वास्तुकला एवं एकिस्टिक्स संकाय तथा प्रो. कमर इरशाद, वास्तुकला विभाग के अध्यक्ष की उपस्थिति में किया गया।

यह व्याख्यान डॉ. चियारा रोस्ताग्रो द्वारा दिया गया, जोकि लियोनार्डो दा विंची की कला और आर्किटेक्चरल विरासत के संरक्षण की जानी-मानी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आर्कि. अर्शिया अहमद और आर्कि. नितेश डोगने के साथ एक्टिविटी सेशन का आयोजन किया।

कार्यशाला में जामिया के 10 विभागों (वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, गणित, ग्राफिक कला, कला शिक्षा, अनुप्रयुक्त कला, कला इतिहास एवं कला प्रशंसा, इतिहास, डिजाइन और नवाचार) के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 110 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और अपने काम का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंथ्रोपोमेट्री में या भारतीय लोकाचार और परंपराओं के संदर्भ में नियोक्लासिसवाद की अपनी विशिष्टता व्यक्त करने के लिए रेखाचित्र, कविता और इन्फोग्राफिक्स के रूप में योगदान दिया।

कार्यशाला के बाद प्रो. चियारा रोस्ताग्रो, आर्कि. अर्शिया अहमद और आर्कि. नितेश डोगने द्वारा क्यूरेट 'नियोक्लासिकल इटेशन: रूट्स ऑफ ब्यूटी' नामक एक प्रदर्शनी को 22 से 27 अप्रैल, 2022 तक इन्स्टीट्यूटो इटालियनो डि कल्चरा (इतालवी दूतावास सांस्कृतिक केंद्र), नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया। 40 से अधिक छात्रों के काम का चयन किया गया और दूतावास में प्रदर्शित किया गया जिसकी इटली के माननीय राजदूत एच.ई. विन्सेन्ज़ो डि लुका सहित कई प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सराहना की गई।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट

<https://iiwantoniocanova.wixsite.com/antoniocanova> पर जाएँ।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया